IndiaMART InterMESH Ltd.



6th floor, Tower 2, Assotech Business Cresterra, Plot No.22, Sec 135, Noida-201305, U.P. Call Us: +91 - 9696969696 E: customercare@indiamart.com Website: www.indiamart.com

August 5, 2021

To, The Manager-Listing **BSE Limited** (BSE: 542726)

The Manager-Listing **National Stock Exchange of India Limited** (NSE: INDIAMART)

Subject: Publication of information regarding 22nd Annual General Meeting of the Company

Dear Sir/Madam,

We wish to inform you that the 22nd Annual General Meeting ('AGM') of IndiaMART InterMESH Limited ('Company') is scheduled to be held on Tuesday, August 31, 2021 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

The Notice of the AGM of the Company and the Annual Report for the financial year 2020-21 will be sent only in electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants and will also be available on the Company's website at https://investor.indiamart.com/.

Pursuant to Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published today i.e. August 5, 2021, in Mint (English Language National Daily Newspaper - All India) and Hindustan (Hindi Language Daily Newspaper - Delhi) pursuant to General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs. The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at https://investor.indiamart.com/.

Please take above information on record.

Yours faithfully,

For Indiamart Intermesh Limited

(Manoj Bhargava)

Sr. Vice President (Legal & Secretarial), **Company Secretary & Compliance Officer**

Membership No: F5164

Encl: As above





RBI relaxes new current a/c norms deadline

gopika.g@livemint.com MUMBAI

he Reserve Bank of India has further extended the deadline for implementing the new current account norms by another three months, following requests from banks. The extension comes one year after the guidelines were first introduced and nine months since the first deadline. The central bank has asked all lenders to ensure that the instructions are implemented in a non-disruptive

"Banks will be permitted time till 31 October, 2021, to implement the provisions of the circular. This extended timeline shall be utilized by banks to engage with their borrowers to arrive at mutually satis factory resolutions within the ambit of the circular. Such issues, which banks are unable to resolve themselves, shall be escalated to the Indian Banks' Association for appropriate guidance. Residual issues, if any, requiring regulatory consideration shall be flagged by the IBA (Indian Banks' Association) to the Reserve Bank for examination by September 30,

2021," RBI said in a statement. To enforce credit discipline and check diversion of funds, RBI had put certain safeguards in place for opening current accounts by banks in August last year. According to the rules, banks are not allowed to open current accounts where their exposure is less than 10% of the borrower's total exposure to the banking system. RBI had asked the lenders to comply within three months, but with banks dragging their feet on compliance, the regulator had to extend the deadline to 31 July.

Sensex hits 54,000 as markets extend gains

Stocks in other markets in the Asia-Pacific region also extended gains

nasrin.s@livemint.com

ndian stock markets scaled a new high on Wednesday on the back of investor optimism of an extended equities rally spurred by a continued rush of liquidity and improvement in economic activity amid covid-induced disruptions.

The Sensex hit the 54,000-mark for the first time, with the 30-share index rising 546.41 points or 1.02% to 54,369.77. The Nifty closed 128.05 points or 0.79% higher at 16,258.80. Shares in other markets in the Asia-Pacific were also higher with the Shanghai Composite in China, Hong Kong's Hang Seng, and South Korea's Kospi rising around 1%.

The market rally signifies the continuation of the bull run, said Naveen Kulkarni, chief investment officer, Axis Securities. "With the improvement in key macro data, FIIs turned buyers in the equity market v/s the net sellers in the last month. Further, the recent spate of initial public offerings (IPOs) and their success clearly indicates the appetite for mid and small cap stocks."

Investor wealth has ballooned by ₹4.05 trillion to Rs239.52 trillion in the last three days alone with the markets continuing to post gains in August so far. The stock market rally, however, represents a dichotomy with the covid-hit economy even

as domestic macro data trends showed improvement in July.

INVESTOR wealth

last 3 days with the

markets continuing

rose by ₹4.05 tn in the

"Such divergent trends should not be surprising, considering that the former is entirely linked with the performance of listed companies, while the latter has a much broader scope," said Nikhil Gupta, research analyst, Motilal Oswal Financial

The strong performance of the equity

market is a reflection of the fact that the gross value added (GVA) of listed non-financial companies (NFCs) grew 14% from the year earlier in the second half of 2020 and 36% from the year earlier in the

The GVA of the rest of the economy,

STRONG PERFORMANCE

BUT the rally signifies

a dichotomy with the

domestić macro data

however, shrank 2% in the second half of

2020, while growing 6.7% in the first

quarter of 2021 compared to the year ear-

lier, though at a slower pace than the pre-

Sunil Tirumalai, UBS India Strategist,

however, does not see much upside to

the Nifty from the current levels. He said

the linkage between consumer price

index (CPI)-based inflation and listed

economy even as

THE bull run is a

reflection of the fact

that the GVA of listed

NFCs grew 36% y-o-y

The bull run

The Sensex hit the 54,000-mark for the first time, with the 30-share index rising



stocks has been weak. "However, the flow through from bond markets is real and significant. Our work has shown that an 80 basis points (bps) rise in Indian government bond yields would normally be accompanied by 12% compression in the Nifty price to earnings (PE) multiple," he

Meanwhile, with the Reserve Bank of India (RBI) widely expected to maintain the status quo on interest rates, Morgan Stanley said that while the growth trend is improving, the risks to inflation trajectory will gain more prominence in the monetary policy

committee (MPC) discussions. "We believe that the key to managing

policy normalization will be confidence in growth recovery. In our base case, we expect growth recovery to be sustained and that will give confidence to RBI to start with policy normalization in first quarter of 2022," said Morgan Stanley in a note on 3 August.

THE RBI'S POLICY STANCE WILL BALANCE GROWTH REVIVAL



Respond to this column at feedback@livemint.com

ommunicating the policy stance and providing forward guidance will be the toughest tasks for the monetary policy committee (MPC) in this week's policy review. We expect a unanimous decision on holding the policy reporate, although the tone on continuing an accommodative stance will be moderated, and the parsing will be of interest.

We begin with reaffirming our recognition of the innovation and dynamism of the RBI's response, supported by the government. Economic conditions seem to have markedly improved since the last MPC preview in June. Yet, price pressures are a cause for concern.

Global central banks, especially the Fed might announce and then start tapering sooner rather than later, although spillover effects on emerging markets are likely to be more moderate than in 2013. Some smaller central banks have already started policy normalizations.

In India, there is a possibility of a third covid wave, although this is forecast to be moderate. As many as 47 crore adults have been vaccinated, and supplies are gradually improving.

We continue with our 9.5% FY22 real GDP growth forecast, although there are emerging signs of an upside. In the near term, economic recovery seems stronger than earlier anticipated. Axis Bank Composite Leading Indicator Index shows activity revival in July almost at March levels. Rains had been a concern, but the deficit now is largely covered across most geographies. Sowing for a couple of crops (oilseeds, pulses) is still lagging, but the gap looks to be closing. Demand recovery signs are strong. July manufacturing PMI reads 55.3 (vs 48.1 in June). July auto sales reported mostly double-digit growth. Dealer calls suggest that consumer durables demand remains robust, particularly from tier-1 and 2 cities. Housing demand remains strong across metros and large cities.

Central government spending will be able to support demand revival, although state governments remain fiscally constrained. Direct tax collections, particularly corporate taxes, have been strong in Ql. GST collections in July (reflecting June activity) was ₹1.16 trillion, well above the monthly ₹l trillion benchmark.

Inflation is emerging as a concern, and it will be progressively difficult for the MPC to "look through". Post May and June CPI 6.3% readings, July and August prints are likely to be sub-6%, but still high. Crude prices are likely to stay at \$75/bbl or above, given low inventories and tight demand-supply gap. Food price inflation concerns seem to be moderating. However, corporate results seem to suggest that even downstream sellers are passing on high input costs to

end-users, suggesting latent purchasing power. While the RBI's earlier 9.5% growth forecast is likely to be retained due to the public health uncertainty, the average FY22 CPI forecast might be raised from 5.1% to close to 5.4%. The RBI survey results of both household inflation expectations and industry capacity utilization will inform the MPC's forward guidance.

The MPC statement will likely continue with an accommodative stance, but with a perceptible shift in tone. The RBI's economic forecasts will also provide de facto forward guidance on the evolving growth-inflation trade-off. While data dependence will guide future actions, the RBI is likely to provide sufficient advance signals of normalization to ensure that the financial markets continue to transition to tighter conditions in an orderly fashion, consistent with

the governor's oft-Inflation is stated view of the sovereign yield curve emerging as a being a public good. concern and it Although hikes in will be tough

the reverse reporate might still be some time away, a de facto policy normalization will likely begin with

a gradual draining of system liquidity without disrupting the markets. Measures for calibrating both the price and quantity of system liquidity, designed to push up short-term rates, will be introduced. The preferred instrument is likely to be offered amounts and pricing of longer $maturity\ variable\ rate\ reverse\ repo\ auctions.$

for the MPC to

'look through'

Finally, access to credit, particularly for MSMEs, remains key for sustained growth. Credit offtake from the system remains moderate, despite signs of a revival of private sector capex in some segments. The emergency credit line guarantee scheme (ECLGS) has reportedly been effective in stabilizing the solvency (and cash flows) of micro and small businesses, and a progressive expansion of the scope will help stressed sectors. We expect further RBI measures to incentivize credit offtake.

Saugata Bhattacharya is executive vice-president (business and economic research) at Axis Bank. The views expressed here are personal.

indiamart **IndiaMART InterMESH Limited**

CIN: L74899DL1999PLC101534 Regd. Office: 1st Floor, 29- Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi- 110002 orp. Office: 6th Floor, Tower 2, Assotech Business Crest

Sector-135, Noida - 201305, U.P. Website: www.indiamart.com; Email: cs@indiamart.com; Ph. No: 011-45608941 NOTICE OF THE 22ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Twenty Second (22nd) Annual General Meeting ('AGM') of the Members of IndiaMART InterMESH Limited ('Company') will be held on Tuesday, August 31, 2021 at 11.00 a.m. IST, through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Video Means ('OAVM') facility, without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM along with the Annua Report for FY 2020-21 ('Annual Report') will be sent only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participants ('DP'). The Notice of the AGM and Annual Report will also be made available on the Company's website at http://investor.indiamart.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of Nationa Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by NSDL

The Members who have already casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the Notice of the AGM.

Members may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at AGM as provided in the Notice of the AGM. Members whose email ids are not registered with the Company/DPs are requested to register their e-mail address with their respective DP for receiving Annual Reports and other communications through

Members may also note that the Board of Directors of the Company in their Meeting held on April 29, 2021, recommended Final Dividend of Rs. 15/- per equity shares subject to the approval of Members in ensuing Annual General Meeting. The Final Dividend, if approved, will be paid to those Member(s)/their mandate(s) whose name is recorded in the Register of Member(s)/Beneficial Owner(s) maintained by the depositories as on Tuesday, August 24, 2021.

To avoid delay in receiving dividend directly in their bank account, Member(s) are requested to update their bank details and KYC with their respective DP, where shares are held in dematerialised mode. For IndiaMART InterMESH Limited

Place: Noida Date : August 4, 2021

Manoj Bhargava Company Secretary & Compliance Officer

Office Of the Urban Public Service Society, Bilaspur (C.G.)

Tender Notice (1st Call) S.No.02/UPSSB/2021-22/ Bilaspur Dated 04.08.2021

covid trend, he said.

The Bilapur Urban Public Service society invites online RFP from eligible bidders fulfilling criteria mentioned in RFP for the execution of work as detailed below

System Tender No.	Description of Project	Last Date to Download RFP Document
80913	Selection Of Bidder For Development, Operation & Maintenance Of Diagnostic Centres Under City Diagnostic Centre Scheme To Install, One Diagnostic Centre Cum Radiology Centre, Collection Centres, at Bilaspur	26.08.2021 up to 5:30 PM

General Information about Tender Fee, Earnest money & RFP Document can be Obtained from E-Procurement web portal https://eproc.cgstate.gov.in from 05.08.2021 from 5:30 PM.The Pre Bid Meeting will be held on 16.08.2021 at 11:30AM at the office of Secretary Urban Public Service Society, 2nd floor Vikas Bhavan Nehru Chow Bilaspur(C.G.)

EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1st Floor, Plot No. 419, Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area, Delhi-110092

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

Chief Engineer Shah. South on behalf of Commissioner,

EDMC invites the EOI for leasing / renting of vacant office

spaces on fixed term basis at the prime location in East

Delhi due on 17.08.2021. Further detail can be seen on

website https://mcdonline.nic.in or clicking the link

https://mcdonline.nic.in/edmcportal/downloadFile/

draft eoi - karkadooma offc bldg 6 final (1)

EDMC's Citizens Helpline No.: 155303

EOI No. E.E(Pr.)-I-Sh.S/TC/2021-22/D-01

210715051615715.pdf.

R.O. No. 21/DPI/East/2021-22

Head (Contracts & Materials)

n No.: U40109DL2001PLC111527

Urban Public Service Society Bilaspur

CERSAI

COMPREHENSIVE INFORMATION ON

ENCUMBRANCE STATUS OF **PROPERTIES**

TO GIVE YOUR **LENDING** DECISIONS, CONFIDENCE.



CERSAI (Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India) If you are in the business of lending against properties/assets- you need to discover CERSAI, as scores of leading Banks, NBFCs and Financial Institutions have done so far. A comprehensive database of encumbered movable, immovable and intangible properties assists you in taking informed lending and investing decisions.

Our database of over 40 million assets is trusted by the leading Banks in India. This database is growing continuously to provide lending companies/individuals the comfort of readily accessible critical information on properties.

CERSAI goes a long way to support EoDB initiatives in India by making available a unified registry for filing of Security Interests on properties. CERSAI adds confidence, which thousands of leading Banks and financial institutions enjoy everyday.

Visit www.cersai.org.in/CERSAI/home.prg to take another step towards securing your business interests.

Mitigating the risk

Anyone can file

Easy to access

of multiple financing



PNB FINANCE AND **INDUSTRIES LIMITED**

Chief Engineer-

Shahdara South

CIN: L65929DL1947PLC001240; email: pnbfinanceindustries@gmail.com Regd. Office: 1st Floor, Express Building, 9-10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Website: www.pnbfinanceandindustries.co Phone: +91-7303495375

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, August 12, 2021, inter alia, to consider and approve, the standalone and consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2021. The above information is also available on the vebsite of the Company at www.pnbfinanceandindustries.com and sent to

The Calcutta Stock exchange Limited.

By Order of the Board For PNB Finance and Industries Limited Shweta Saxena (Director & Company Secretary) (DIN-03120958 & Membership No.: A18585) Place: New Delhi

Date: 04/08/2021







CERSAI, Tower 1, Office Block, 4th Floor, Plate-A, NBCC, Kidwai Nagar (E), New Delhi - 110023

A GOVT. OF INDIA COMPANY



निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि को निकालने का दावा ऐसे करें

नई दिल्ली | **हिन्दुस्तान ब्यूरो**

बैंकों में बचत खाता, एफडी, डाकघर की छोटी बचत और बीमा पॉलिसी सहित म्यूचुअल फंड के निष्क्रिय खातों में 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। अगर आपका, परिवार के किसी सदस्य या दोस्त का पैसा किसी बैंक, डाकघर के पास खाता निष्क्रिय होने के कारण अटक गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कछ कदम उठाकर उस खाते से पैसा आसानी से निकाल

नई दिल्ली | **हिन्दुस्तान ब्यूरो**

कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने

नौकरीपेशा से लेकर कारोबार जगत

को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

इससे बीते एक साल से अधिक समय

में लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी

पड़ी है और कारोबार में नुकसान उठाना

पड़ा है। इसका असर बैंकों के कर्ज

भुगतान पर देखने को मिला है। बैंकों के

लोन का विश्लेषण करने पर यह

जानकारी मिली है कि बीते 15 महीने

के दौरान होम लोन में चुक के मामले

तीन गुना बढ़ गए हैं। हालांकि, अब

बैंकिंग सेक्टर के जानकारों का कहना

है कि सबसे बुरा दौर बीत गया है और

इंडियन मॉर्गेज गारंटी कंपनी

(आईएमजीसी) जो 12,000 करोड़

मूल्य के होम लोन का प्रबंधन करती है,

का कहना है कि बीते एक साल में लोन

चुक के मामले में दोगुनी की बढ़ोतरी हुई

है। कंपनी का कहना है कि वहीं 15 जून

में हम जितने दावों का भुगतान कर रहे

रिजर्व बैंक ने चालू खाता पर नए नियमों

के अनपालन के लिए बैंकों को तीन

नई दिल्ली | एजेंसी

आगे सुधार की पूरी उम्मीद है।

इस्तेमाल नहीं करने पर वह निष्क्रिय हो जाता है

कैसे पता करें राशि

सबसे पहले उस बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें खाता है। वहां पर आपको निष्क्रिय खातों की सूची देखनी होगी। आप सूची से सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर की जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए नाम और जन्मतिथि,पैन नंबर और हजार करोड रुपये बैंक, मोबादल नंबर की डाकघर, म्यूचुअल फंड में जरूरत होगी। इसके जमा जिसके कोई जरिये आप संबंधित राशि दावेदार नहीं की जानकारी ले सकते हैं।

संकट : होम लोन में चूक

के मामले तीन गुना बढ़े

गुना है। बीते 15 महीने की अवधि में

हम जिन दावों का भुगतान कर रहे हैं,

उनकी संख्या तीन गुना बढ़ गई है।

आईएमजीसी भारतीय स्टेट बैंक

(एसबीआई), हाउसिंग डेवलपमेंट

फाइनेंस कॉर्प (एचडीएफसी),

आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस

बैंक सहित लगभग 20 ऋणदाताओं के

लिए आवास ऋण सुनिश्चित करती है।

का कर्ज फंसा : रियल एस्टेट

सलाहकार एनारॉक का कहना है कि

प्रॉपर्टी बाजार में 1.35 लाख करोड़

25 साल के बाद बीमा राशि निष्क्रिय होने पर नहीं

कैसे मिलेगी राशि

आपका खुद का खाता है तो केवाईसी दस्तावेज की जरूरत होगी। यदि नॉमिनी के रूप में दावा कर रहे हैं तो संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र और नॉमिनी के रूप में अपनी

पहचान के लिए दस्तावेज की जरूरत होगी। इसके बाद आपको नजदीकी र्वेंक बांच में जाकर अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम फॉर्म भरकर जमा



बीमा राशि के लिए नियम

पीपीएफ, आरडी, और बीमा का निष्क्रिय खाता 10 साल बाद वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में जमा हो जाता है। बीमा के मामले में निष्क्रिय खाता में पड़ी राशि का दावा इस कोष में जाने के 25 साल के भीतर ही कर सकते हैं इसके बाद नहीं।

नॉमिनी जरूर रखें

बीमा दावे की राशि ज्यादातर उन खातों में है जिनमें कोई नॉमिनी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि बचत खाता, एफडी, पीपीएफ, डीमैट, बीमा पॉलिसी सहित निवेश के हर विकल्प में नॉमिनी जरूर दें। इससे आपके नॉमिनी को राशि आसानी से मिलेगी

क्यों बढ़ रहे ऐसे मामले

टैक्स सलाहकार के .सी गोदुका का कहना है कि कई बार लोग बच्चों के मामले में इसलिए नॉमिनी का नाम नहीं देते कि एक का नाम देने पर दूसरे के साथ बैमानी हो जाएगी। उनका कहना है कि एक से नॉमिनी बनकार हिस्सेदारी तय कर सकते हैं।

डन बातों का ध्यान

दावा करने वालों को वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल दस्तावेज साथ रखने चाहिए। बैंक खाता निष्क्रिय होने पर भी जमा पर ब्याज की रकम रकम खाते में जमा होती रहती है। वहीं, अनक्लेम्ड रकम का भूगतान के बाद बैंक फिर खाता चालू कर देते हैं।

एसबीआई का शुद्ध लाभ ५५ प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बुधवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका एकल शुद्ध लाभ 55 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,504 करोड़ रुपये रहा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बताया कि इस दौरान खराब ऋणों में गिरावट से उससे मदद मिली। बैंक ने 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 4,189.34 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

पीजीआईएम इंडिया ने ५७८ करोड़ जुटाए

मुम्बई। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप फंड के एनएफओ से 578 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एनएफओ 9 जुलाई से 23 जुलाई,2021 के बीच आवेदन के लिए खुला था। एनएफओ को 37000 से अधिक आवेदन मिले।

सीमा शुल्क की जानकारी के लिए नया पोर्टल शुरू

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक अनपालन के बारे में जानकारी देने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। सीआईपी ने www.cip.icegate. gov.in/CIP पोर्टल शुरू किया है।

नई टिआगो एनआरजी बाजार में उतारी

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने टिआगो रेंज का विस्तार करते हए टिआगो एनआरजी के नए स्पोर्ट ट्रिम संस्करण टिआगो एनआरजी को बाजार में पेश किया है। दिल्ली में इसकी कीमत 6.57 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

कार्लाइल और पीएनबी हाउसिंग सौदे को मंजूरी

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कार्लाइल ग्रुप और अन्य निवेशकों द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में प्रस्तावित निवेश को मंजूरी दे दी है। पीएनबी हाउसिंग में पंजाब नेशनल बैंक की 32% से अधिक हिस्सेदारी है।

एचडीएफसी ने अंसल के गिरवी शेयर जब्त किए

नई दिल्ली। एचडीएफसी ने कहा कि उसने बकाया वसूली के लिए अंसल हाउसिंग लिमिटेड के गिरवी रखे गए 7.78 प्रतिशत शेयरों को जब्त किया है। एचडीएफसी ने बताया, निगम अपने व्यवसाय के तहत विभिन्न कर्जदारों को ऋण देता है।

एंजेल वन फिनटेक कारोबार में उतरेगी

नई दिल्ली एंजेल ब्रोकिंग ने अपना ब्रांड नाम बदलते हुए एंजेल वन कर दिया है। कंपनी के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभाकर तिवारी ने कहा कि यह स्टॉक ब्रोकिंग सेवा सहित ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों को परा करेगा।

टेलीग्राम मैसेंजर पर बीमा क्लेम की सुविधा

नई दिल्ली। टेलीग्राम मैसेंजर पर भी बीमा क्लेम समेत कई सुविधाएं ले सकेंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने यह सेवा शुरू की है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टेलीग्राम चैटबॉट के जरिये वाहन बीमा क्लेम करना, स्थिति पर नजर रखना,पॉलिसी का नवीनीकरण, पॉलिसी दस्तावेज डाउनलोड करना, पॉलिसी विवरण को संशोधित करने समेत कई सेवाएं दे रही है। कंपनी ने व्हाट्सऐप पर सेवाओं का भी विस्तार किया है।

इंडियन मॉर्गेज गारंटी कंपनी की रिपोर्ट में खुलासा, कोरोना से आय घटने का असर कुमार मंगलम बिड़ला का वोडाफोन से इस्तीफा

फेरबदल

नई दिल्ली | **एजेंसी**

वोडाफोन आइडिया के गैर-कार्यकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने बिड़ला के पद छोड़ने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की बुधवार को बैठक हुई थी। इस बैठक में कुमार मंगलम बिड़ला के पद छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वोडाफोन-आइडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हिमांश् कपानिया को कंपनी का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना है। वर्तमान में हिमांशु कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। कपानिया के पास 25 वर्षों के अनुभव है।

निवेशकों के लिए चाटेर बन रहा

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि निवेश प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिभृति बाजार में निवेशकों के लिए एक चार्टर तैयार करने पर काम जारी है। चार्टर निवेशकों के अधिकारों और शिकायत निवारण

नियामक की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में कहा, केंद्रीय बजट में घोषित निवेशक चार्टर को तैयार करने का काम के .एम बिड़ला की जगह लेने वाले हिमांशु कपानिया दुरसंचार उद्योग के दिग्गज हैं। वह वैश्विक स्तर पर दूरसंचार कंपनियों में महत्वपूर्ण बोर्ड में शामिल रहे हैं। कपानिया ने दो साल के लिए ग्लोबल जीएसएमए बोर्ड में भी काम किया है। वह वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर फिक्की परिषद के अध्यक्ष हैं।

कपानिया को जिम्मेदारी

देश में तीन कंपनियों की जरूरतः एयरटेल भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल

विट्टल ने बुधवार को कहा कि भारत जैसे बड़े देश को दूरसंचार क्षेत्र में तीन निजी कंपनियों की जरूरत है उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योग को राहत देने के लिए कदम उटाएगी। यह टिप्पणी वोडाफोन आइंडिया के अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष के बीच अहम है।

तीसरे महीने भी सेवा क्षेत्र में गिरावट

नई दिल्ली | **एजेंसी**

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और स्थानीय प्रतिबंधों के कारण व्यावसायिक गतिविधियों, नए ऑर्डर और रोजगार में बड़े पैमाने पर कमी के चलते भारत के सेवा क्षेत्र में जुलाई में लगातार तीसरे महीने गिरावट हुई।

मौसमी रूप से समायोजित भारत सेवा कारोबार गतिविधि सूचकांक जुलाई में 45.4 अंक रहा, जो जून में 41.2 अंक था। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की

निराशाजनक

• सेवा कारोबार गतिविधि सूचकांक जुलाई में 45 .4 अंक रहा

• 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार होता है

भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार होता है, जबकि 50 से नीचे का अंक संकुचन को दर्शाता



महामारी को लेकर बना माहौल सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन पर भारी पड़ रहा है, जबिक यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था

है। आईएचएस मार्किट में अर्थशास्त्र की संयुक्त निदेशक पोलीन्ना डी लीमा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 806, सिद्धार्थ, 96, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—110019 कारपोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर—126, नोएडा— 201304, उ.प्र., भारत टेलीफोन : +91 11 26436336 वेबसाइट : www.hcltech.com; ई-मेल आईडी: investors@hcl.com

विडियों कॉन्फ्रेंसिंग एवं अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के द्वारा आयोजित होने वाली 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 27 अंगरत, 2021 को प्रातः 11:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर विडियों क्रॉफ्रेंसिंग (''वीसी')/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (''ओवीएम') के द्वारा आयोजित की जाएगी ताकि बैठक को आयोजित करने के लिए भेजी जा रही सूचना में निर्धारित कामकाज को परा किया जा सके।

निरन्तर कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने सामान्य परिपत्र दिनांक 13 जनवरी, 2021 साथ में पठित परिपत्रों दिनांक 5 मई, 2020, 8 अप्रैल , 2020 और 13 अप्रैल, 2020 (इसके बाद सामूहिक रूप से ''एमसीए परिपत्रोंं' के नाम से निर्दिष्ट) द्वारा एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को आयोजित करने की अनुमति दे दी है। एमसीए परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों और इसके अधीन दिए गए नियमों और सेबी (सचीकरण बाध्यताएं आयोजन वीसी / ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा।

उक्त एमसीए परिपत्रों और परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2021 साथ में पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसरण में, वार्षिक रिपोर्ट (2020–21) के साथ कम्पनी के एजीएम का नोटिस उन सदस्यों को केंवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है जिनके ई—मेल पते कम्पनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत है। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम का नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट (2020–21) कम्पनी की वेबसाइट <mark>www.hcltech.com</mark>, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः <u>www.nseindia.com</u> और www.bseindia.com तथा ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

ई—मतदान के माध्यम से मतदान∕एजीएम में मतदान का तरीका

क) सदस्यों के पास ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) के माध्यम से एजीएम में निर्धारित किए गए व्यवसायों पर अपना मतदान देने का अवसर होगा। डिमेटिरिलाइज्ड 🗸 भौतिक रूप सें शेयर धारण करने वाले सदस्यों को ई-मतदान (दूरस्थ ई-मतदान सहित) को विधि, एजीएम के नोटिस में प्रदान की जाएगी।

ख) ई—मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित होने अपना मतदान नहीं दिया है और ऐसा करने से वे वर्जित नहीं है।

वाले वे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली द्वारा मतदान देने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान प्रस्तावों पर

ग) ई–मतदान (दूरस्थ ई–मतदान सहित) के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉग–इन प्राथमिकताएं (क्रेडेंशियल्स), सदस्यों को ई–मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत नहीं है, वे निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए अपनी लॉग–इन प्रमाणिकताएं

उत्पन्न कर सकते है। ई—मेल पतों को पंजीकरण / अद्यतन करने का तरीका

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पतों को कम्पनी या उनके डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत

नहीं किया है. उनसे अनरोध किया जाता है कि निम्नलिखित लिंक https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html पर क्लिक करके तथा उसमें दिए गए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करके, एजीएम के नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट (2020–21) को प्राप्त करने के प्रयोजन हेतुं उसे अस्थायी रूप से पंजीकृत करें: ई—मेल पतों के स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्य कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:–

भौतिक रूप से

लिए

निम्नलिखित लिंक पर जाएं

https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html कम्पनी के नाम यानी एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को चुनें।

शेयरों के लिए

फोलियों नं., शेयरधारक का नाम, सर्टिफिकेट नं. पैन, मोबाइल नम्बर, ई-मेल-आईडी का उल्लेख करें तथा साथ में अपने पैन कार्ड / आधार / वैध पासपोर्ट आदि की स्व—साक्ष्यांकित प्रति दें। डिमैटिरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक विधि में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने

ई-मेल पतों, पैन व बैंक खाता विवरणों को उस डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत / नवीकृत करवाएं जहाँ उनके संबंधित डिमैट खाते है।

मनीष आनन्द

कम्पनी सचिव

यदि ई–मेल पते की पंजीकरण प्रक्रिया में कोई भी प्रश्न है, तो सदस्य कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट से <u>rnt.helpdesk@linkintime.co.in</u> पर सम्पर्क कर सकते है ।

दिनांक : अगस्त 4, 2021 स्थान : नोएडा (यू.पी.)

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

माह का और समय दिया है। आरबीआई ने कहा है कि 31 अक्तूबर से पहले इसे हर हाल में

नए नियमों के मुताबिक कर्ज देने वाले बैंकों को वैसे ग्राहकों का चालू खाता नहीं खोलना है जिनका बैंकिंग सिस्टम में कुल एक्सपोजर 10 फीसदी से कम है। साथ ही पराने खाते को बैंकों

सेंसेक्स ५४ हजार के पार पहली बार बंट

मुंबई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सुचकांक बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 546 अंक बढ़कर पहली बार 54,000 के ऊपर बंद हुआ। इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक अपने सर्वकालीन उच्च स्तर 54,465.91 पर पहुंचा और फिर 546.41 अंक यानी 1.02 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 54,369.77 पर बंद हुआ।

इसी तरह, एनएसई निफ्टी 128.05 अंक या 0.79 प्रतिशत बढ़कर 16,246.85 के अपने सर्वकालीन उच्च स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले निफ्टी ने कारोबार के दौरान 16,290.20 उच्चतम स्तर को छुआ।

सेमीकंडक्टर की कमी से कटौती की

नई दिल्ली। जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की पूर्ण अनुषंगी सुजुकी मोटर सेमीकंडक्टर की कमी के कारण अपने अहमदाबाद स्थित कारखाने में इस महीने उत्पादन घटाएगी।

मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को यह कहा। मारुति सुजुकी को कारों की आपूर्ति करने वाली सुजुकी मोटर गुजरात (एसएमजी) ने कारखाने में कुछ उत्पादों के विनिर्माण को घटाकर एकल पारी में सीमित करने का निर्णय किया है।

मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा, सेमीकंडक्टर की कमी के कारण अनुबंध विनिर्माण कंपनी एसएमजी ने इस महीने उत्पादन के आंशिक रूप से प्रभावित होने की सूचना दी है।

आरबीआई ने चालू खाते पर राहत तीन माह बढ़ाई

पुराने नोटों की खरीद, बिक्री को लेकर आगाह किया रिजर्व बैंक ने लोगों को आगाह किया कि अनधिकत संस्थाओं द्वारा कमीशन के आधार पर पराने नोटों और सिक्कों की खरीद या बिक्री के फर्जी प्रस्तावों के झांसे में न आएं। कछ तत्व धोखाधडी से रिजर्व बैंक के नाम, लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं और पुराने बैंक नोटों और सिक्कों की खरीद तथा बिक्री से संबंधित लेनदेन के लिए विभिन्न

ऑनलाइन/ ऑफलाइन मंच से जनता से शुल्क की मांग कर रहे है ने बंद करना शुरू कर दिया था। इसके बाद कई कंपनियों ने बैंकों को काली सची में डालने. उनके साथ कारोबार नहीं करने और सोशल मीडिया पर

विरोध करना शुरू कर दिया था।

पश्चिमांचल विद्युत

वितरण निगम लि.

ई-निविदा संशोधन सूचनाः इस कार्यालय द्वारा

आमंत्रित- (1) निविदा विशिष्टीकरण संख्याः

02/वि0जा0वि0ख0/गा0बाद/2021-22

05/वि0जा0वि0ख0/गा0बाद/2021-22 . जो

दिनांक 03.08.2021 को खोली जानी थी, अब

अपरिहार्य कारणों से यह निविदा दिनांक

12.08.2021 को खोली जाएगी। अन्य नियम

व शर्तें पूर्ववत रहेंगी। कृपया विस्तृत जानकारी के

लिए वेबसाइट www.pvvnl.org/

www.etender.up.nic.in देखें।

वितरण खण्ड, हाइडिल कालोनी, कविनगर

गाजियाबाद। हेल्पलाइन-1800-180-3002,

''राष्ट्र हित में बिजली बचाएं।'' पत्रांक

605/वि0जा0वि0खं0/गा0बाद/टी-2 दिनांकः

🚇 पूर्व मध्य रेल 🚇

ई–निविदा सूचना

धनबाद, दिनांक 03/08/2021 मंडल रेल

प्रबंधक (अभियंत्रण) / पूर्व मध्य रेल / धनबाद द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए

-निविदा आमंत्रित की जाती है:- **क्र.सं. 1**

ई—निविदा सं. 76-DHN-2021-22 कार्य का

नाम. स्थान तथा समापन अवधिः (अवशेष

प्राप्त)—अनुवाद—पाधरुषाह—सहा. आम. /2/धनबाद के अधीन संपूर्ण ट्रैक नवीनीकरण् (एस) कुल—9.06 कि.मी.। 12

(बारह) महीने । कार्य की लगभग लागत (रू

में): 56,91,770.45 क्र.सं. 2. ई—निविदा सं. 77-DHN-2021-22 कार्य का नाम, स्थान

तथा समापन अवधिः धनबाद मंडल – सहा

मं. अभि.(2) / गोमो और सहा. मं. अभि. / बरकाकाना, पू. म. रेल के अधीन टीबीआर — 23.877 कि.मी. और टीएफआर — 5.231 कि.मी.

। 12 (बारह) महीने कार्य की लगभग लागत

ई-निविदा सं. 78-DHN-2021-22 कार्य का

नाम, स्थान तथा समापन अवधिः व मं

अभि./3/धनबाद के अधीन डीएफसी फीडर

रूट पर छोटे पुलों का पुनर्निर्माण एव

मजबतीकरण के साथ संबंधी कार्य। 12 (बारह)

महीने। कार्य की लगभग लागत (रू में)

2,34,17,165.77 • निविदा बंद होने एवं

खुलने की तारीख तथा समयः ई-निविदा बंद होने की तारीख 26.08.2021 को 17:00

बजे। ई-निविदा खुलने की तारीख 27.08.

2021 को 12:00 बजे से। • वेबसाइट का

विवरणः http://www.ireps.gov.in.

–निविदा के तहत मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार

पीआर / 592 / डीएचएन / ईण्जी. / टी / 21-22 / 44

कृते गंडल रेल प्रबंधक (अभियंत्रण)

पूर्व मध्य रेल/धनबाद।

नहीं की जाएगी।

1,28,02,601.87 क्र.सं.

कार्य)–धनबाद–पाथरडीह–सहा.

जानपद

अधिशासी अभियंता, विद्युत

निविदा विशिष्टीकरण संख्याः

हालांकि आरबीआई का मकसद इसके जरिये चालू खाते के जरिये राशि को तय मानकों से हटकर अन्य स्थानों पर हस्तांतरण पर अंकुश लगाना है।

करोड़ रुपये का कर्ज गंभीर दबाव में है।

यानी इस कर्ज को एनपीए या डूबने की

एस्टेट में 7.5 लाख रुपये का कर्ज दिया

है जिसमें 5.02 लाख रुपये तनाव मुक्त

हैं। वहीं, 1.35 लाख करोड़ एनपीए

होने का खतरा है। ये ऋण बैंकों,

एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय

संस्थानों) और होम फाइनेंसरों द्वारा

रियल एस्टेट कंपनियों को दिए गए हैं।

बैंकों का फंसा कर्ज देशभर के 50

रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने रियल

आशंका है।

मौद्रिक नीति की बैठक शुरू

प्रमुख नीतिगत दरों को निर्धारित करने वाली आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने बुधवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए अपनी तीन दिवसीय बैठक शरू की। विशेषज्ञों का मानना है कि मुद्रास्फीति के दबावों के बीच केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर यथास्थिति का विकल्प चुन सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास शक्रवार को एमपीसी के प्रस्तावों को जारी करेंगे।

indiamart

इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1999PLC101534 पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, 29-दिरयागंज, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002 **कार्पोरेट कार्यालय** : छठा तल, टावर 2, एसोटेक बिजनेस क्रेस्टेरा, प्लॉट नंबर 22, सेक्टर-135. नोएडा-201305. उत्तर प्रदेश

वेबसाइटः www.indiamart.com; ई-मेलः cs@indiamart.com; फोन नंबरः 011-45608941

22वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सुचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2015 के साथ पिठत कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल 2020, सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए सर्कुलर") और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020 तथा सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी. 2021 ("सेबी सर्कलर्स") (एमसीए सर्कलर्स तथा सेबी सर्कलर्स सामहिक रूप से "सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड ("कम्पनी") की बाईसवीं (22वीं) वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), मंगलवार, 31 अगस्त, 2021 को पर्वा, 11.00 बजे आईएसटी, बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अथवा अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

उक्त सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") कम्पनी के उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजी जाएगी, जिनकी ई-मेल आईडी'ज कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ("डीपी'ज") के पास पंजीबद्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट केम्पनी की वेबसाइट http://investor.indiamart.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं www.nseindia.com क्रमानुसार पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। कम्पनी एजीएम सूचना में निर्धारित समस्त प्रस्तावों पर वोट डालने के अधिकार का प्रयोग

करने हेत् अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा एजीएम में ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है तथा यह सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वे सदस्य, जो एजीएम से पहले अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और विधि तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने संबंधी अनुर्देश एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराए गए हैं। सदस्यगण. रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग के संबंध में एजीएम की सूचना में

उपलब्ध कराए गए अनदेशों का पालन कर सकते हैं। सदस्यगण, जिनकी ई–मेल ऑईडी'ज कम्पनी / डीपी ज के पास पंजीबद्ध नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता अपने संबंधित डीपी के सदस्यगण यह भी नोट करें कि कम्पनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को आयोजित उसकी बैठक में रू. 15 / – प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक

सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदन किए जाने की शर्त पर, संस्तृत किया है। अंतिम

लाभांश. यदि अनमोदित किया गया. उस सदस्य / उन सदस्यों / उनके आदेशिती (आदेशितियों) को अदा किया जाएगा जिनका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021 को, दर्ज मौजूद पाया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि लाभांश सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने में विलम्ब से बचने के लिए, अपना बैंक विवरण तथा केवाईसी अपने संबंधित डीपी, जहां शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं, के पास अद्यतन करवा लें।

वास्ते इंडियामार्ट इंटरमेश लिमिटेड हस्ता. /-स्थान : नोएडा

15 माह यानी कोरोना शुरू होने से अब तक ईएमआई चूक तेजी से बढ़ी 35 करोड़ के रियल एस्टेट सेक्टर को दिया

कर्ज गंभीर दबाव में छह लाख मकानों का

निर्माण अटका कोरोना संकट के कारण देशभर में लगभग छह लाख मकानों का काम अटक गया है। इनकी कुल कीमत करीब पांच लाख करोड़ रुपरो से ज्यादा है। एनरॉक प्रोपर्टी कंसल्टेंट की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार, छह लाख लटके मकान देश के साथ बड़े शहरों के हैं। इनका निर्माण 2014 या उससे पहले शुरू की गई थी।

दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा संकट

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। यहां 1 13 लाख मकान फंसे पड़े हैं, जिनका मूल्य 86,463 करोड़ रुपये है। उसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में 42,417 करोड़ रुपये मूल्य के 41,730 मकान अटके पड़े हैं। फंसी पडी परियोजनाओं के मामले में एनसीआर अब आगे हैं। यहां 52

तंत्र पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी ने जारी हैं।

bhartí

पंजी. कार्यालयः एयरटेल सेन्टर, प्लॉट नं. 16, उद्योग विहार, फेस-IV, गुरूग्राम - 122015

नई दिल्ली-110 070

ईमेलः compliance.officer@bharti.in वेबसाइटः www.airtel.com भारती एयरटेल लिमिटेड की 26वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने नियमो एवं सेबी (सचीकरण बाध्यतायें एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिपत्र सं. 14 / 2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, साधारण परिपत्र सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, साधारण परिपत्र सं. 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 और साधारण परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 'एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं परिपत्र सं. SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में, भारती एयरटेल लिमिटेड ('कम्पनी') की 26वीं वार्षिक आम बैठक 'एजीएम') की सूचनापत्र में निर्धारित कारोबार को सम्पादित करने के लिए मंगलवार 31 अगस्त, 2021 को दोपहर 3.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कान्फ्रेंसिग ('वीसी')/अन्य

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, सूचनापत्र और एकीकृत रिपोर्ट I वार्षिक खाते 2020-2021 (''वार्षिक रिपोर्ट'') उन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल के द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकत हैं। सूचनापत्र व वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <u>www.airtel.com</u>, केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश www.bseindia.com व www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में भाग ले सकते हैं । एजीएम से जुड़ने के लिए निर्देश व भाग लेने का तरीका सूचनापत्र में दिया जाएगा । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के निर्धारण के उददेश्य से की जाएगी।

पंजीकृत नहीं किए हैं, वे सूचनापत्र में वर्णित प्रक्रिया को अपनाकर अपने ई-मेल पते https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर गंजीकृत करा सकते हैं या निम्नलिखित दस्तावेजों, को केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेंड, कंपनी के आरटीए के ई-मेल पते : <u>einward.ris@kfintech.com</u> पर भेजकर

क) अपने नाम व पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैनड प्रति ख) शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति

पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैनड प्रति. और

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अपने संबंधित डीपी के साथ अपने

सूचनापत्र और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए, वे सूचनापत्र मे र्णित प्रक्रिया को अपनाकर अपने ई-मेल पते अस्थायी रूप से दिये हुए लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx

को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से भी वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया सूचनापत्र में दी गई है यह विज्ञापन एमसीए परिपत्रों व सेबी परिपत्री के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यो

कृते भारती एयरटेल लिमिटेर हस्ता /-स्थान : नई दिल्ली पंकज तिवारी

कम्पनी सचिव

भारती एयरटेल लामटड

CIN: L74899HR1995PLC095967

कार्पो. कार्यालयः भारती क्रिसेन्ट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II,

दूरभाषः 91-124-4222222, फैक्सः 91-124-4248063

ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') से आयोजित की जाएगी।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपने र्द-मेल पते

घ) अपने पते के समर्थन में कोई दस्तावेज (अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित स्कैनड प्रति ।

ई-मेल पतों को रजिस्टर करने का अनुरोध है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए पर पंजीकत कर सकते हैं। कंपनी सचनापत्र में वर्णित प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्ये

को सूचना व लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

दिनांक: 05 अगस्त, 2021

मनोज भार्गव कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी